

यात्रियों के लिए जानकारी

फोर व्हील ड्राइविंग बुशफायर सुरक्षा

बुशफायर और घास की आग अक्सर सड़क और हाइवे के उस पार चली जाती है। धुएँ से साफ-साफ दिखाई देना कम हो सकता है और बिना किसी चेतावनी के सड़कें बंद हो सकती हैं।

यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि आप और आपका परिवार बुशफायर के लिए तैयार है, इसमें वह स्थिति भी शामिल है जब आप घर से दूर यात्रा कर रहे/रही हों।

यात्रा करने की तैयारी की जांच-सूची

बुशफायर शीघ्रता से और बिना चेतावनी के शुरू हो सकती हैं। अपने घर से दूर यात्रा करते समय बुशफायर से अपने खतरे को कम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जो आप उठा सकते/सकती हैं।

आपके निकलने से पहले

- सुनिश्चित करें कि आपका घर और आपकी प्रापर्टी अच्छे से तैयार है - जब आप घर से दूर हों तो एक अच्छे से तैयार घर की बुशफायर से बचने की अधिक संभावना होती है
- किसी को बताएँ कि आप कहाँ जाने की योजना बना रहे/रही हैं और आपके साथ कौन है
- फायर डेंजर रेटिंग (आग के खतरे के दर्जे) की जांच करें - फायर डेंजर रेटिंग जितनी अधिक होगी, परिस्थितियाँ उतनी ही खतरनाक होंगी
- उस क्षेत्र के बारे में सोचें जहाँ आप जा रहे/रही हैं और यदि आग लग जाए तो आप क्या करेंगे/करेंगी - आस-पड़ोस के करीबी सुरक्षित स्थानों की पहचान करें
- क्षेत्र में किन्हीं वर्तमान घटनाओं या कम होते खतरों की सूचना के लिए Fires Near Me NSW स्मार्टफोन ऐप्लीकेशन या वेबसाइट की जांच करें - इन क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा करने से परहेज करें
- आपातकालीन बचाव किट पैक करें ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसका प्रयोग किया जा सके
- महत्वपूर्ण आपातकालीन सूचना स्रोत लिखें - Emergency+ स्मार्टफोन ऐप्लीकेशन डाउनलोड करें

यात्रा करते समय

- मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट पर मौसम की परिस्थितियों पर नज़र रखें
- Fires Near Me NSW स्मार्टफोन ऐप्लीकेशन और वेबसाइट के माध्यम से किसी भी आग संबंधित गतिविधि की ताजा जानकारी रखें
- उन क्षेत्रों से यात्रा करने या वहाँ की यात्रा करने से परहेज करें जहाँ आग के खतरे के दर्जे बढ़े हुए हैं - आपका सबसे सुरक्षित स्थान हमेशा उन क्षेत्रों से बहुत दूर रहना होता है जहाँ बहुत सी झाड़ियाँ और घास हो
- कोई आग जलाने से पहले, प्रतिबंधों की जांच करें और यह जांच लें कि कहीं टोटल फायर बैन (पूर्ण रूप से आग जलाने पर प्रतिबंध) की घोषणा तो नहीं की गई है

यदि आप नेशनल पार्क या स्टेट फोरेस्ट से यात्रा कर रहे/रही हैं तो अधिक प्रतिबंध लागू हो सकते हैं।

यदि आप आग में फंस जाते/जाती हैं

गाड़ी में

- ▶ अपनी गाड़ी के सामने वाले भाग को आग की ओर रखते हुए सड़क से परे और पेड़ों, झाड़ियों तथा ऊंची घास से दूर किसी साफ क्षेत्र में गाड़ी पार्क करें
- ▶ खिड़कियाँ और वायु-संचरित छिद्र बंद कर दें
- ▶ इंजन बंद कर दें और हैडलाइटें और खतरा दिखाने वाली लाइटें चलाएँ
- ▶ एक ऊनी कंबल अपने ऊपर लपेट लें और अपने आपको विकिरित गर्मी से बचाने के लिए गाड़ी की खिड़कियों से नीचे रहें
- ▶ अधिक मात्रा में पानी पीएँ और एक गीले कपड़े से अपना मुँह ढकें
- ▶ तब तक नीचे ही बैठे रहें जब तक आग की आवाज़ गुजर न जाए, इसके बाद ध्यानपूर्वक गाड़ी से निकलें (बाहर गर्मी होगी)

पैदल

- ▶ भयभीत न हों या आग को पछाड़ कर आगे निकलने की कोशिश न करें - यदि आपको सामने धुआँ दिखाई दे रहा हो तो वापस मुड़ जाएँ
- ▶ शिलाओं, कंदराओं, तटबंधों, धाराओं या सड़कों वाला एक साफ क्षेत्र खोजें जिससे आपकी रक्षा हो सके और पर्वत की चोटियों से दूर रहें
- ▶ नीचे की ओर रहें और नंगी त्वचा को ढकें
- ▶ पानी पीएँ और एक गीले कपड़े से अपना मुँह ढकें

यदि आपका जीवन खतरे में है, तो तुरंत ट्रिपल ज़ीरो से संपर्क करें।

आपातकालीन बुशफायर सूचना

बुशफायर की स्थिति में, यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने क्षेत्र में स्थिति की नवीनतम जानकारी रखें ताकि जितनी जल्दी संभव हो सके आप कदम उठा सकें। NSW Rural Fire Service जोर देकर प्रोत्साहित करती है कि इन नम्बरों, लिंक्स और एप्स को अपने पास रखें:



आपातकालीन स्थिति में तुरंत ही **ट्रिपल ज़ीरो (000)** को फोन करें



Fires Near Me NSW App



facebook.com/nswrfs



www.rfs.nsw.gov.au



twitter.com/nswrfs



बुशफायर सूचना सेवा

1800 NSW RFS (1800 679 737)



स्थानीय रेडियो, टी.वी. और समाचार पत्र सुनें,

फायर ट्रेल्स पर फोर व्हील ड्राइविंग

फायर ट्रेल्स यह सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण भाग हैं कि फायरफाइटर आग तक पहुँच सकते हैं और इन्हें सुरक्षित रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। इनका प्रयोग लैंडस्कैप के चारों ओर बुशफायर के खतरे का प्रबंधन करने में सहायता देने के लिए भी किया जाता है। फायर ट्रेल्स तक पहुँच प्राप्तिक ज़मीन के मालिक द्वारा दी गई अनुमति के अधीन है।

आप निम्नलिखित काम करके NSW Rural Fire Service और ज़मीन प्रबंधन संस्थाओं को फायर ट्रेल्स का रखरखाव करने में सहायता कर सकते/सकती हैं:

- ▶ ट्रैक को हुए नुकसान की सूचना देकर
- ▶ गिरे हुए पेड़ों की सूचना देकर या इन्हें हटाकर
- ▶ वर्षा के बाद ट्रेल्स पर गाड़ी चलाने से परहेज करें जब ट्रैक की गीले और कीचड़ से भरे होने की संभावना हो।

इस मौसम में बुशफायर के लिए तैयारी करने हेतु आप क्या कर सकते/सकती हैं, इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए:



NSW Rural Fire Service की वेबसाइट

www.rfs.nsw.gov.au

www.myfireplan.com.au



आपका सबसे करीबी NSW RFS

फायर कंट्रोल सेंटर:



बुशफायर सूचना सेवा

1800 NSW RFS (1800 679 737)

Hindi | हिन्दी